



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 36] नई दिल्ली, सितम्बर 20-सितम्बर 26, 2009, शनिवार/भाद्र 29-आश्विन 4, 1931

No. 36] NEW DELHI, SEPTEMBER 20-SEPTEMBER 26, 2009, SATURDAY/BHADRA 29-ASVINA 4, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2009

सा. का. नि. 138.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 34 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (परिषद्) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) अभिप्रेत है ;

(ख) "परिषद्" से अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (i) के अधीन स्थापित परिषद् अभिप्रेत है ;

(ग) "सदस्य सचिव" से परिषद् का सदस्य सचिव अभिप्रेत है ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त ऐसे शब्द और पद जो परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. बैठक और कारबार संचालित करने का तरीका.—(1) परिषद् की एक कैलेंडर वर्ष के दौरान कम से कम एक बैठक होगी।

(2) परिषद् की बैठकों का संचालन स्वप्रेरणा से या सदस्य सचिव के अनुसंध पर या परिषद् के दस सदस्यों से अन्यून द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर परिषद् के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(3) परिषद् के आधे सदस्य परिषद् की बैठक के लिए गणपूर्ति गठित करेंगे।

(4) प्रत्येक बैठक की लिखित सूचना सदस्य सचिव द्वारा

प्रत्येक सदस्य को बैठक का स्थान, तारीख और समय उसमें वर्णित करते हुए बैठक की तारीख से कम से कम दस दिन पहले सूचना भेजी जाएगी :

परन्तु अध्यक्ष अत्यावश्यक मुद्दों पर विचार करने के लिए संक्षिप्त सूचना पर परिषद् की विशेष बैठक बुला सकेगा ।

(5) बैठक की सूचना परिषद् के कार्यालय में अभिलिखित प्रत्येक सदस्य के पते पर हाथ द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जाएगी और यदि इस प्रकार भेजी जाती है तो यह उस समय पर सम्यक् रूप से परिदत्त की गई समझी जाएगी जिसको सूचना डाक के साधारण अनुक्रम में भेजी जाती :

परन्तु सूचना अनुकृति, इलेक्ट्रानिक मेल या संक्षिप्त संदेश सेवा के माध्यम से भेजी जा सकेगी ।

(6) बैठक की कार्यसूची का संचालन सदस्य सचिव द्वारा सदस्यों को बैठक के कम से कम सात दिन पूर्व किया जाएगा ।

(7) कार्यवृत्त में किसी मद को सम्मिलित करने के लिए संकल्प की सूचना सदस्य सचिव को बैठक के कम से कम तीन दिन पूर्व पहुंच जानी चाहिए :

परन्तु परिषद् का सदस्य ऐसे किसी मद को, जिसके लिए सूचना प्राप्त नहीं हुई है, सम्मिलित करने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(8) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में परिषद् के अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा।

(9) परिषद् की बैठक की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त सदस्य सचिव द्वारा बनाया जाएगा और परिषद् के सभी सदस्यों को परिचालित किया जाएगा ।

(10) सुझाए गए किसी संशोधन या संशोधनों के साथ कार्यवृत्त को इसकी अगली बैठक में परिषद् की पुष्टि के लिए रखा जाएगा ।

(11) परिषद् के अध्यक्ष द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि किए जाने और हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् उन्हें कार्यवृत्त बही में अभिलिखित किया जाएगा जिसे कार्यालय समय के दौरान प्रत्येक समय परिषद् के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा ।

(12) परिषद् के बैठक में विचारित सभी प्रश्नों का विनिश्चय परिषद् के अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा :

परन्तु यदि मतों का समान विभाजन होता है तो परिषद् के अध्यक्ष के पास द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

4. परिषद् के कृत्य.—परिषद् उसे समनुदेशित कृत्यों का प्रयोग निम्नलिखित रीति से करेगा, अर्थात् :-

(क) परिषद् ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो उसे अधिनियम द्वारा समनुदेशित किया गया है ;

(ख) जहां बैठक संचालित करना समीचीन न हो सदस्य सचिव परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन से ऐसी मद या मदों का

परिचालन सदस्यों में कर सकेगा जिसे आवश्यक समझा जाए जिससे कि परिषद् का अध्यक्ष उस पर विनिश्चय करने के लिए उनकी टिप्पणियां अभिप्राप्त कर सके और ऐसे विषय की सूचना इसकी अगली बैठक में परिषद् को दी जाएगी ;

(ग) परिषद् निश्चित संदर्भ निर्देशों के साथ स्थायी या तदर्थ ऐसी समिति या समितियां गठित कर सकेगा जो आवश्यक समझी जाएं और ऐसी समिति या समितियों की रिपोर्ट या रिपोर्टें इसकी बैठक में विचारार्थ परिषद् के विनिश्चय के लिए रखी जाएगी ;

(घ) यदि अध्यक्ष की राय में कोई आपात स्थिति पैदा होती है जिस पर तत्काल कार्रवाई अपेक्षित हो तो वह ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे और इसकी अगली बैठक में परिषद् के अनुमोदन के लिए इसे सूचित करेगा ।

5. यात्रा और अन्य भत्ते.—(1) अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ग) और खंड (झ) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्यों के यात्रा भत्तों का विनियमन समान श्रेणी के समूह 'क' अधिकारियों को लागू नियमों के अनुसार किया जाएगा ।

(2) अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (ज) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्य ऐसे यात्रा और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जो उन्हें भारत सरकार द्वारा गठित समितियों और आयोगों को नियुक्त संसद सदस्यों को अनुज्ञेय है।

(3) अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (2) के खंड (क), खंड (ख), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च) खंड (छ), खंड (ज), खंड (ट), खंड (ठ), और (ड) में निर्दिष्ट परिषद् के सदस्य ऐसे यात्रा और दैनिक भत्तों के हकदार होंगे जो उन्हें उनके नियोजनकर्ता निकायों के नियमों के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

(4) सदस्य अपने संबद्ध संगठनों से जिसका वह सदस्य है अपने यात्रा और दैनिक भत्तों का दावा कर सकेगा ।

[सं. एफ-23-4/2008-टीएस III]

एन. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

New Delhi, the 15th September, 2009

G.S.R. 138.—In exercise of the powers conferred by Section 34 of the National Institutes of Technology Act, 2007 (29 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Institutes of Technology (Council) Rules, 2009.

(2) They shall come in to force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the National Institutes of Technology Act, 2007 (29 of 2007);

(b) “Council” means the Council established under sub section (i) of Section 30 of the Act;

(c) “Member Secretary” means the Member Secretary of the Council;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The meetings and the manner of conducting business.—(1) The Council shall meet at least once during a calendar year.

(2) The meetings of the Council shall be convened by the Chairman of the Council suo-moto or at the request of the Member Secretary or on a requisition signed by not less than ten members of the Council.

(3) Half of the members of the Council shall form a quorum for a meeting of the Council.

(4) A written notice of every meeting shall be sent by the Member Secretary to every member at least ten days before the date of the meeting mentioning therein the place, date and time of the meeting :

Provided that the Chairman may call a special meeting of the Council at short notice to consider urgent issues.

(5) The notice of a meeting may be delivered either by hand or sent by registered post at the address of each member, as recorded in the office of the Council and if so, sent, shall be deemed to be duly delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post:

Provided that the notice may also be sent through Facsimile, electronic mail or Short Message Service.

(6) Agenda for a meeting shall be circulated by the Member Secretary to the members at least seven days before a meeting.

(7) Notices of motions for inclusion of any item in the agenda must reach the Member Secretary at least three days before the meeting:

Provided that the Chairman of the Council may, however, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.

(8) The ruling of the Chairman of the Council in regard to all questions of procedure shall be final.

(9) The minutes of the proceedings of a meeting of the Council shall be drawn up by the Member Secretary and circulated to all the members of the Council.

(10) The minutes, together with any amendment or amendments suggested, shall be placed for confirmation of the Council at its next meeting.

(11) After the minutes are confirmed and signed by the Chairman of the Council, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Council at all times during office hours.

(12) All questions considered at the meeting of the Council, shall be decided by a majority of the votes of the members present, including the Chairman of the Council:

Provided that if the votes are equally divided, the Chairman of the Council shall have a second or casting vote.

4. Functions of the Council.—The Council shall exercise the functions, assigned to it, in the following manner, namely :—

(a) the Council shall exercise such powers and perform such duties as are assigned to it by the Act;

(b) where it is not expedient, to convene a meeting, the Member Secretary may with the approval of the Chairman of the Council, circulate such item or items, as are considered necessary, among the Members so as to obtain their comments to enable the Chairman of the Council to take decisions thereon and such matters shall be reported to the Council at its next meeting;

(c) the Council may set up such Committee or Committees, standing or *ad hoc*, with definite terms of reference, as are considered necessary and the report or reports of such Committee or Committees shall be placed for consideration and decisions of the Council at its meeting; and

(d) if, in the opinion of the Chairman, any emergency has arisen which requires immediate action, he may take such actions as he deems necessary and shall report the same for approval to the Council in its next meeting.

5. Traveling and other allowances.—(1) The traveling allowances of the members of the Council referred to in clauses (c) and (i) of sub-section (2) of Section 30 of the Act shall be regulated as per the rules applicable to Group ‘A’ Officers of the equivalent Grade.

(2) The members of the Council referred to in clause (j) of sub-section (2) of Section 30 of the Act shall be entitled to such traveling and daily allowances as are admissible to them as Members of Parliament appointed to Committees and Commissions set up by the Government of India.

(3) The Members of the Council referred to in clauses (a), (b), (d), (e), (f), (g), (h), (k), (l), and (m) of sub-section (2) of Section 30 of the Act shall be entitled to such traveling and daily allowances as are admissible to them under the rules of their employing bodies.

(4) The Members shall claim their traveling and daily allowances from their respective organisations to which they belong.

[No. F.23-4/2008-TS.III]

N. K. SINHA, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 2009

सा. का. नि. 139.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, झाड़वर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, झाड़वर समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रादेशिक कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, झाड़वर समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की अनुसूची में,—

स्तंभ 7 में टिप्पण 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“टिप्पण 1 :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।”

(ख) स्तंभ 8 में,

(i) मद संख्या 3 में शीर्षक “आवश्यक” के अधीन, प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

“मोटर यांत्रिकी का ज्ञान (प्रशिक्षित मैकेनिक के कौशल की अपेक्षा न करने वाले यानों में लघु त्रुटियों को दूर करने में अभ्यर्थी को समर्थ होना चाहिए)।”

(ii) शीर्षक “आवश्यक” के अधीन, मद संख्या 3 के पश्चात्, ‘या’ शब्द का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. ए-12018/45/2000-लेप/सीसीडी]

एम. के. मिश्रा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम, सा. का. नि. 411 तारीख 2 दिसम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 17th September, 2009

G.S.R. 139.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur Driver group ‘C’ posts Recruitment Rules, 2005 namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur Driver group ‘C’ posts Recruitment (Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Health and Family Welfare, Regional Leprosy Training and Research Institute, Raipur Driver group ‘C’ Recruitment Rules, 2005 (hereinafter referred to as the said Rules),—

In column 7, for Note 1 and the entry relating thereto the following Note and entry shall be substituted, namely :—

“Note —1 The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from the candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep);”

(b) in column 8.

(i) under the heading ‘essential’ in item number 3, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :—

“Knowledge of motor mechanism (the candidate should be able to remove minor defects in vehicles not requiring the skill of trained mechanic).”

(ii) under the heading ‘essential’, after item number 3, the word ‘OR’ shall be omitted.”

[F. No. A-12018/45/2000-Lep/CCD]

M. K. MISHRA, Under Secy.

Note : The Principal rules were published vide GSR. 411 dated the 2nd December 2005.